

प्रेस नोट

दिनांक 01.06.2022

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना जायस पुलिस द्वारा चोरी के सामान व अवैध तमंचा, एक जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2022 को उ0नि0 जंगबहादुर यादव मय हमराह द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहन संख्या यूपी36टी6263 पर सवार एक अभियुक्त रफीक पुत्र मो0 हलीम निवासी बसौनी थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी को ओदारी रेलवे क्रासिंग रोड से समय करीब 04:10 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया जिसमें 03 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर भाग गये । पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोगो का चोरी करने का एक संगठित गिरोह है दिन मे हम लोग अपनी पिकअप वाहन संख्या यूपी36टी6263 लेकर घूम-घूमकर रैकी करते है और मौका पाने पर रात्रि मे चोरी कर लेते है जो पैसा मिलता है उससे हमलोग मौज मस्ती एवं जीवन यापन करते है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से, एक अदद लोहे का बरम, एक अदद बैटरा, एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा घटना मे प्रयुक्त एक अदद पिकअप वाहन संख्या यूपी36टी6263 बरामद हुआ । थाना जायस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- रफीक पुत्र मो0 हलीम निवासी बसौनी थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रिजवान पुत्र सलामत नि0 तोराब का पुरवा मजरे बसौनी थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी
2. ताज मोहम्मद उर्फ ननकउ पुत्र मोहम्मद हबीब नि0 तोराब का पुरवा मजरे बसौनी थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।
3. फिरोज खाँ पुत्र मोहम्मद वसीम नि0 तोराब का पुरवा मजरे बसौनी थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी

बरामदगी-

1. चोरी का एक अदद लोहे का बरम (गेंहू को आगे ढकेलने वाला)
2. चोरी का एक अदद बैटरा
3. एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद कारतूस जिंदा 12 बोर
4. एक अदद पिकअप वाहन संख्या UP36T 6263 (घटना में प्रयुक्त)

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 127/22 धारा 380,411 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी ।
- मु0अ0सं0 61/22 धारा 380,411 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जंगबहादुर यादव थाना जायस जनपद अमेठी ।
2. का0 दीपक थाना जायस जनपद अमेठी ।
3. का0 राघवेन्द्र सिंह थाना जायस जनपद अमेठी ।
4. का0 विजयकेश यादव थाना जायस जनपद अमेठी ।